

@Shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य 30.05.2021

थाना खुदागंज पुलिस टीम की बडी कार्यवाही

करीब 50 लाख कीमत की 124 ग्राम स्मैक के साथ मादक पदार्थ तस्कर युनुस गिरफ्तार ।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद मे मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार बाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं श्री परमानन्द पाण्डेय क्षेत्राधिकारी तिलहर के निर्देशन में थाना खुदागंज को मिली बडी कामयाबी ।

आज दिनांक 29.05.2021 की रात्रि 22.00 बजे थानाध्यक्ष श्री वकार अहमद खाँ के नेतृत्व में थाना खुदागंज पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर युनुस अली को चिरचिरा पुलिया के पास से मादक पदार्थ की तस्कीर करते हुए गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त के कब्जे 124 ग्राम स्मैक बरामद किया गया । जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत करीब 50 लाख रूपये है । इस सम्बन्ध मे थाना खुदागंज पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना खुदागंज पर मु0अ0सं0- 147/21 धारा 8/21 N.D.P.S Act अभियोग पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा जा रहा है ।

नाम पता अभियुक्त :-

1- युनुस अली पुत्र मो0 हनीफ निवासी जोगी नवादा निकट शाहनूरी मस्जिद थाना बारादरी जनपद बरेली ।

पूछताछ का विवरण:-

पूछताछ मे अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह जनपद बरेली से स्मैक लेकर जनपद शाहजहाँपुर व असपास के जनपद मे तस्करी कर बेचता था । आज भी स्मैक लेकर बीसलपुर जनपद पीलीभीत जा रहा था कि आपके द्वारा पकड लिया गया । पूछताछ के दौरान प्रकाश मे आये तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी ।

बरामदगी का विवरण:-

1- अभियुक्त के कब्जे से 124 ग्राम स्मैक बरामद होना (अंतर्राष्ट्रीय बाजार मे कीमत 50 लाख रूपये है।)

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 147/21 धारा 8/21 N.D.P.S Act, थाना खुदागंज जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री वकार अहमद खान थाना खुदागंज जि0 शाह0
2. उ0नि0 श्री सतीश कुमार थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
3. का0 1261 दीपक पंवार थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
4. का0 1841 शाहरुख हसन थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
5. का0 2290 अंकित तोमर थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
6. का0 617 वीरेन्द्र थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।
7. का0 732 अर्जुन कुमार थाना खुदागंज जि0 शाह0 ।